

## प्रेस विज्ञप्तिर

### 10.45% सरकारी स्टॉक 2018 का पुनर्भुगतान - प्रेस विज्ञप्तिक जारी करना

नीचे दिए गए ब्यौसरो के अनुसार निम्न लिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है:

सारणी: 27 अप्रैल, 2018 के दौरान परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौसरा				
क्र.सं.	प्रतिभूति का नाम	पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख	पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख	पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्यातज संग्रहण नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	'10.45% जीएस 2018' का पुनर्भुगतान	30 अप्रैल, 2018 (सोमवार)	27 अप्रैल 2018 (शुक्रवार)	30 अप्रैल, 2018 (सोमवार)

10.45% सरकारी स्टॉक 2018 के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्या में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।

2. सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे।

तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंकों की शाखाओं (जहां वे ब्याज भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।

3. उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
बजट प्रभाग  
नार्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक: 04 अप्रैल 2018